

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2023	2024		वि.व. 2023-24	2023	2024	
		जून	मई	जून		जून	मई	जून
		1	-2	-1		0	5	2
ए. निपटान प्रणाली								
वितीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	43.04	3.81	4.07	4.36	259206893	22638088	22018913	22580094
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	16.80	1.54	1.60	1.60	170464587	15259736	14632648	15107943
1.1.1 आउटराइड	9.51	0.88	0.98	0.97	13463848	1299039	1363203	1372786
1.1.2 रेपो	4.94	0.45	0.43	0.42	76718788	7312076	6669493	6414226
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.35	0.21	0.19	0.21	80281951	6648621	6599952	7320931
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	24.92	2.17	2.37	2.67	80984671	6854522	6780829	6953169
1.3 रुपये के डेसिग्रेटिव @	1.31	0.10	0.10	0.09	7757636	523830	605436	518982
बी. भुगतान प्रणाली								
I वितीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)								
2700.16	212.30	249.71	231.84	170886670	14336617	15186947	16037694	
1.1 ग्राहक लेनदेन	2686.04	211.10	248.49	230.72	152406168	12739932	13559606	14570686
1.2 अंतर्बैंक लेनदेन	14.12	1.20	1.22	1.12	18480503	1596685	1627340	1467008
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)								
1486106.89	106299.38	156773.59	155567.02	67542859	5151213	6279019	6073917	
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.92	0.30	0.31	0.30	261	20	18	16
2.2 एपीबीएस \$	25888.17	1875.41	2295.50	2929.34	390743	25772	37499	43676
2.3 आईएमपीएस	60053.35	4681.02	5576.99	5167.51	6495652	500482	606167	577794
2.4 एनएसीएच जमा \$	16227.27	1294.91	1074.61	1311.11	1525104	109983	132404	113888
2.5 एनईएफटी	72639.50	5097.12	7467.75	7307.34	39136014	3039491	3457995	3331461
2.6 यूपीआई @	1311294.68	93350.61	140358.43	138851.42	19995086	1475464	2044937	2007081
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	26.19	2.18	1.62	1.41	352	30	17	15
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)								
18249.53	1453.92	1698.67	1697.73	1687658	129549	167035	171469	
3.1 भीम आधार पे @	193.59	14.83	19.33	21.07	6112	487	506	581
3.2 एनएसीएच नामे \$	16426.49	1296.38	1539.23	1544.59	1678769	128819	166305	170756
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1629.45	142.71	140.11	132.07	2777	243	225	132
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)								
58469.79	4731.29	5105.17	5003.43	2423563	188284	208520	200081	
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	35610.15	2629.05	3601.36	3579.49	1831134	137234	164955	158822
4.1.1 पीओएस आधारित \$	18614.08	1378.71	1906.58	1895.40	651911	48854	63831	59417
4.1.2 अन्य \$	16996.08	1250.34	1694.78	1684.10	1179223	88380	101124	99405
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	22859.64	2102.24	1503.82	1423.94	592429	51049	43565	41259
4.2.1 पीओएस आधारित \$	16477.95	1499.66	1114.38	1063.60	393589	33778	29772	27630
4.2.2 अन्य \$	6381.69	602.58	389.44	360.33	198840	17271	13793	13629
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)								
78775.40	6569.82	5496.00	5236.08	283048	23509	16697	15897	
5.1 वालेट	63256.69	5303.68	4204.49	4038.05	234353	19762	11566	11298
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	15518.71	1266.13	1291.51	1198.03	48695	3747	5131	4599
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8429.87	681.07	689.94	650.89	11247	1017	1027	946
5.2.2 अन्य \$	7088.84	585.06	601.57	547.14	37447	2730	4104	3653
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)								
6632.10	539.36	524.39	484.42	7212333	578306	611518	553834	
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6632.10	539.36	524.39	484.42	7212333	578306	611518	553834
6.2 अन्य	0.00	-	-	-	-	-	-	-
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1648233.71	119593.76	169597.82	167988.69	79149461	6070861	7282789	7015198
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1650933.88	119806.06	169847.53	168220.52	250036131	20407478	22469736	23052892
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1644301.78	119266.70	169323.14	167736.10	242823799	19829172	21858218	22499058

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि . व. 2023-24	2023	2024		वि.व. 2023-24	2023	2024	
		जून	मई	जून		जून	मई	जून
		1	-1	0	1	5	3	4
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1252599.21	88097.74	134522.56	133652.25	30687088	2243152	3126322	3046393
1.1 अंतर्बैंक \$	83000.56	6145.85	9224.51	8682.06	5676805	416271	585196	559035
1.2 अंतर-बैंक \$	1169598.65	81951.89	125298.05	124970.19	25010283	1826881	2541125	2487357
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	45034.98	3566.29	3771.12	3714.13	102117736	8354717	8705212	9501615
2.1 अंतर्बैंक @	12033.28	929.63	1010.25	1026.53	53247042	4456179	4276566	4875740
2.2 अंतर-बैंक @	33001.71	2636.66	2760.86	2687.59	48870694	3898539	4428645	4625875
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)	66440.72	5577.45	5166.41	5076.57	3259388	274070	260240	255229
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	95.80	7.43	8.63	8.29	4648	352	441	426
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	66001.01	5540.43	5133.52	5045.81	3241538	272643	258785	253844
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	343.90	29.58	24.26	22.47	13202	1074	1014	959
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	15.18	2.29	0.33	0.28	148	23	3	3
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	15.06	2.29	0.31	0.27	147	23	3	3
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.12	0.01	0.02	0.02	1	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11754.95	943.77	879.79	973.79	314003	25991	22804	24426
5.1 एईपीएस @	11754.95	943.77	879.79	973.79	314003	25991	22804	24426

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2024	2023	2024	
	तक	जून	मई	जून
	1	-1	0	1
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	10667.22	10645.15	10780.74	10835.23
1.1 क्रेडिट कार्ड	1018.03	886.82	1033.00	1038.13
1.2 डेबिट कार्ड	9649.19	9758.33	9747.74	9797.10
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	16743.63	16709.14	14840.92	15051.30
2.1 वालेट @	13381.80	13409.30	11302.14	11375.61
2.2 कार्ड @	3361.82	3299.84	3538.78	3675.69
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.58	2.59	2.57	2.56
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.23	2.23	2.22	2.21
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.35	0.36	0.36	0.35
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	17.55	14.96	15.62	15.18
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	89.03	80.94	88.04	89.67
6 भारत क्यूआर @	62.50	56.88	61.21	61.64
7 यूपीआई क्यूआर *	3462.03	2720.15	3299.47	3401.24

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंको, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।
टिप्पणियाँ: 1. डेटा अंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्यूलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल धरेलु वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सचेंज कार्ड / वालेट को शामिल नहीं किया गया है।
भाग II-ए. निम्नलिखित प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
भाग II-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल है।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन मिडो से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और केनई।
6.2: 'अन्य' में नेच-एनआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
बैंको के मोबाइल ऐस और यूपीआई ऐस के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।
भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित बाणिज्यिक बैंको (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।